

an>

Title: The Speaker made reference to the 69th Anniversary of the dropping of atom bombs on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki on 6th and 9th August, 1945, respectively.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आज से उनहतर वर्ष पूर्व 6 और 9 अगस्त, 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे, जिनसे महाविनाश हुआ था। हजारों निर्दोष व्यक्तियों की मौत हुई, लाखों लोग घायल हुए और आजीवन अपंगता के शिकार हुए।

लगभग सात दशक बीत जाने के बाद भी हिरोशिमा युद्ध की विभीषिका के घाव आज भी गहरे हैं। मन में संवेदना जगाते हैं। साथ ही, यह संकल्प लेने की प्रेरणा देते हैं कि हम एक युद्ध-रहित शांतिमय विश्व बनाएं। भगवान बुद्ध और महावीर के अहिंसा के संदेश आज भी प्रसंगिक हैं। भारत से निकला यह शांति संदेश तब से लेकर आज तक के विश्व के परिदृश्य में शांति के लिए हमारी अग्रणी भूमिका की आवश्यकता को रेखांकित करता है। आइए, हम सब इस दिन एक शांतिप्रिय, सह-अस्तित्व वाले विश्व की रचना का संकल्प लें।

जैसा कि हम कहते हैं –

ॐ सह नावतु।
सह नौ भुनक्तु।
सह वीर्यं कर्वावहै।
तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।
ॐ शांतः शांतः शांतः॥

अब यह सभा परमाणु महाविनाश के शिकार हुए लोगों के सम्मान में कुछ देर मौन खाड़ी रहेगी।

11.01hrs

The Members then stood in silence for short while.

ÂÂÂÂÂÂ

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 401।

...(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): अध्यक्ष जी, हमने प्रश्न काल स्थगित करने का नोटिस दिया है...(व्यवधान)

श्री तारिक अनवर (कटिहार): हमारा भी स्थगन प्रस्ताव है...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अभी हम शांति की बात कर रहे थे, मैं हाउस में भी शांति की बात कर रही हूँ। आप सब बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: No, I am sorry.

...(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: खड़गे जी, जितने भी स्थगन प्रस्ताव आए हैं, उन पर मैं प्रश्न काल के बाद बोलने का मौका दूंगी।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: It is not now. It is after the Question Hour, please.

...(Interruptions)

HON. SPEAKER: Kharge Ji, it is after the Question Hour.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): संविधान के संरक्षण की हम बात कर रहे हैं...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: खड़गे जी, मैं आपको समय दूंगी। शून्य काल में पहला मौका आपको मिलेगा।

...(व्यवधान)